



हरियाणा के जिले			
झज्जाला	01-11-1966	जींद	01-11-1966
कुल्लू	01-11-1966	सोनीपत	22-12-1972
चंडीगढ़	01-11-1966	भिवानी	22-12-1972
करनाल	01-11-1966	कुरुक्षेत्र	23-01-1973
हिसार	01-11-1966	सिरसा	26-08-1975
मेरठ	01-11-1966	फरीदाबाद	02-08-1979

...ation of a man is never completed till he dies!
A MASTNA UNIVERSITY
...AWARDS ...

BMU



APPROVAL FROM

मानसिक रूप से सशक्त बनने की

सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में

रोहतक (एचकेए ब्यूरो)। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना था। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एच. एल. वर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को खाना करने से पहले उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डॉ. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

डॉ. गौरव दलाल ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक



बच्चों को खाना करते बीएमयू के कुलपति डॉ. एचएल वर्मा। स्रोत : विवि

रोहतक (वि)। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य व प्रबंधन संकाय की ओर से बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाया गया।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.

एचएल वर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को खाना करने से पहले उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी।

वहीं यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार, डॉ. गौरव दलाल, डॉ. सुमन, डॉ. ज्योति व डॉ. तिलक राज ने स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू उपायों पर जानकारी दी।

बीएमयू के छात्रों ने शहीद रविंद्र कुमार स्कूल में किया स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन



वॉइस ऑफ़ बहादुरगढ़ न्यूज़ : रोहतक।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं

सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना एवं उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना था। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एचएल वर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को रवाना करने से पहले उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डॉ. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति

जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। डॉ. गौरव दलाल ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम, योग एवं ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को बताया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर वे कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। डॉ. सुमन पहल ने संतुलित आहार और पोषण की भूमिका पर विस्तार से युवाओं को जंक फूड से दूर रहने और ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और दूध का सेवन करने की सलाह दी। डॉ. ज्योति ने स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को नींद, हाइड्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया। डॉ. तिलक राज ने

मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, भावनात्मक संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की, जिससे किशोर छात्रों को अपनी पढ़ाई और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में बिजनेस मैनेजमेंट क्लब की अध्यक्ष मिस ज्योति का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन का समन्वय किया और विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय दांगी ने भी इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। विद्यालय के अंग्रेजी प्रवक्ता संजय ने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी और विश्वविद्यालय की टीम का आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन

रोहतक, चेतना संवाददाता

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान

करना था।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एच. एल. वर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को खाना करने से पहले उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डॉ. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

बाएमयू द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता



BABA MASTNATH UNIVERSITY



HEALTH AWARENESS CAMP

ON 15/11/2023

FROM 10:00 PM TO 08:00 PM, DR. VIVEK, SCHOOL, GANDHI CAMP, MUMBAI

Organized by Department of Management and Commerce
In Association with Business Management Club and Computer Science Club

बीमारियों से बचाव के लिए नियमित करना चाहिए व्यायाम

जागरण संवाददाता • रोहतक : बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना व उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना रहा।

विश्वविद्यालय कुलपति डा. एचएल वर्मा ने छात्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक



वीएमयू के छात्रों ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के लिए रवाना करते हुए कुलपति व अन्य • सौ. पीआरओ

रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डा. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डा. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। डा. गौरव दलाल ने जीवनशैली

से जुड़ी बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम, योग एवं ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को बताया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर वे कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। डा. सुमन पहल ने संतुलित आहार और पोषण की भूमिका पर विस्तार से युवाओं को जंक फूड से दूर रहने और ताजे फल, हरी सब्जियां,

दालें और दूध का सेवन करने की सलाह दी। डा. ज्योति ने स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को नींद, हाइड्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया। डा. तिलक राज ने मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, भावनात्मक संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की।



BABA MASTNATH UNIVERSITY

Asthal Bohar, Rohtak-124021 (Haryana)



Preceptor Baba Mastnath Ji Maharaj
(1874-1947)

HEALTH AWARENESS CAMP

 **30th May, 2025**

Venue. SRK PM SHRI GOVT. SR. SEC. SCHOOL, GANDHI CAMP, ROHTAK

Organized by : Faculty of Management Studies



रोहतक। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के लिए बच्चों को रवाना करते हुए बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. एचएल वर्मा।

फोटो: हरिभूमि

बीएमयू के छात्रों ने शहीद रविंद्र कुमार स्कूल में लगाया स्वास्थ्य जांच कैंप

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रोहतक

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना था।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एचएल वर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को रवाना करने से पहले उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डॉ. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे। इस

बीमारियों से बचाव बताए

डॉ. गौरव दलाल ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम, योग एवं ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को बताया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर वे कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। डॉ. सुमन पहल ने संतुलित आहार और पोषण की भूमिका पर विस्तार से युवाओं को जंक फूड से दूर रहने और ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और दूध का सेवन करने की सलाह दी।

कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। डॉ. ज्योति ने स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को नींद, हाइड्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया। डॉ. तिलक राज ने मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, भावनात्मक संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की, जिससे किशोर छात्रों को अपनी पढ़ाई और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में बिजनेस मैनेजमेंट क्लब की अध्यक्ष मिस ज्योति का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन का समन्वय किया और विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया।





और उनके बनने की तिथि

फतेहाबाद	15-07-1997
मेवात	04-04-2005
पलवल	15-08-2008
चरखी दादरी	18-10-2016

हरियाणा के जिले

जयपुर	01-11-1989
कैथल	01-11-1989
पानीपत	01-11-1989
रेवाड़ी	01-11-1989
पंचकुला	15-01-1995
झज्जर	15-07-1997

MASTNATH UNIVERSITY
HEALTH AWARENESS CAMP

Check In



Rohtak, Haryana, India

Gokulam Road, Arjun Nagar, Rohtak, Haryana
124001, India

Lat 28.889173, Long 76.605023

05/30/2025 11:24 AM GMT+05:30

Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera



BABA MASTNATH UNIVERSITY

Asthal Bohar, Rohtak-124021 (Haryana)



Mahant Balaknath Ji Yogi
Chancellor, BMU

HEALTH AWARENESS CAMP



30th May, 2025

Venue. SRK PM SHRI GOVT. SR. SEC. SCHOOL, GANDHI CAMP, ROHTAK

Organized by : Faculty of Management and Commerce

In Association with Business Management Club and Computer Science Club

युवा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे : कुलपति डॉ. एच. एल. वर्मा

----- बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ने गांधी कैंप स्कूल में आयोजित किया जागरूकता शिविर

रोहतक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा बिजनेस मैनेजमेंट क्लब और कंप्यूटर साइंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधी कैंप रोहतक में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के किशोर विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संतुलित एवं सक्रिय जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करना था।

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एच. एल. वर्मा विश्वविद्यालय के छात्रों को रवाना करते हुए उनको स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और मानसिक रूप से सशक्त बनने की सलाह दी। डॉ. वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि युवा अभी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, तभी वे भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन पाएंगे।

इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. संजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। डॉ. गौरव दलाल ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव, नियमित व्यायाम, योग एवं ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को बताया कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर वे कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।

डॉ. सुमन पहल ने संतुलित आहार और पोषण की भूमिका पर विस्तार से युवाओं को जंक फूड से दूर रहने और ताजे फल, हरी सब्जियाँ, दालें और दूध का सेवन करने की सलाह दी।

डॉ. ज्योति ने स्वास्थ्य जागरूकता और घरेलू उपायों पर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को नींद, हाइड्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया।

डॉ. तिलक राज ने मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, भावनात्मक संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की, जिससे किशोर छात्रों को अपनी पढ़ाई और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में बिजनेस मैनेजमेंट क्लब की अध्यक्ष मिस ज्योति का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन का समन्वय किया और विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय दांगी ने भी इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को स्वस्थ रखना अनिवार्य है।

विद्यालय के अंग्रेजी प्रवक्ता संजय ने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी और विश्वविद्यालय की टीम का आभार व्यक्त किया।